



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2016/अग्रहायण 16, 1938

No. 448]

NEW DELHI, WEDNESDAY DECEMBER 7, 2016/AGRAHAYANA 16, 1938

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2016

सं. विधि 42(3)/87.—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना सं. 145 (ई) दिनांक 21 फरवरी, 1991 के खण्ड 1 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा 1 के खण्ड (ख) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032 एतद्वारा (क) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गये कार्य करने हेतु "पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं" के रूप में और (ख) तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विश्लेषण के लिए भेजे गये वायु, जल, एवं अन्य पदार्थों के स्तंभ (4) में दर्शाए गए पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विनिर्दिष्ट नमूनों का विश्लेषण करने हेतु सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता देता है। दिनांक 07 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या विधि/42(3)/87, की क्रम संख्या 162 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा :

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषक का नाम	मान्यता हेतु पैरामीटर समूह
1.	2.	3.	4.
163.	केन्द्रीय पर्यावरणीय प्रयोगशाला कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निर्सग भवन, "बी" ब्लॉक, 7वीं 'डी' मेन थिम्माईयाह रोड, शिवानगर, बंगलौर-560058	1. डा. एच. लोकेशवरी, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी-2 2. श्री एच.एम. शिवाकुमार, वैज्ञानिक अधिकारी 3. डा. एच. रूपादेवी, वैज्ञानिक अधिकारी 4. डा. बी.एम. सरिधरा नायक, उप-वैज्ञानिक अधिकारी 5. श्री रागवेंद्र, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	भौतिक, सामान्य, रसायन एवं गैर मेटेलिक, धातु, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञानिक, विष विज्ञानिक, जैवकीय, परिसंकटमय अपशिष्ट, मृदा, स्लज, तलछट के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर, स्रोत उत्सर्जन, शोर तथा सूक्ष्म मौसम विज्ञानिक पैरामीटर्स
164.	आंचलिक कार्यालय (पश्चिम) प्रयोगशाला, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, वीएमसी वार्ड कार्यालय सं. 10 के सामने सुभानपुरा, वडोदरा-390023 गुजरात	1. श्री बी.आर. नायडू, वैज्ञानिक 'ई' 2. डा. डी. ब्राह्मिया वैज्ञानिक 'डी'	भौतिक, सामान्य, एवं गैर मेटेलिक, धातुएं, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञानिक, विष विज्ञानिक, जैवकीय और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर्स, स्रोत उत्सर्जन, शोर और सूक्ष्म मौसम विज्ञानिक पैरामीटर्स और वाहन उत्सर्जन पैरामीटर्स

165.	पर्यावरणीय प्रयोगशाला केन्द्रीय खनन योजना एवं डिजाइन इंस्टिट्यूट लि. (सीएमपीडीआई) गोंदवाना स्थान, कनके रोड, रांची झारखंड- 834008, झारखंड	1. श्री डी.के. सह, वरिष्ठ प्रबंधन (पर्यावरण) 2. डा. विनीता अरोड़ा, वरिष्ठ प्रबंधन (पर्यावरण) 3. श्री पी.सी. झा, वरिष्ठ प्रबंधन (पर्यावरण)	भौतिक, सामान्य, एवं गैर मेटेलिक, धातुएँ, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञानिक, विष विज्ञानिक, और परिवेशी वायु स्रोत उत्सर्जन के विश्लेषण के लिए वायु प्रदूषण के पैरामीटर्स, शोर एवं सूक्ष्म मौसम विज्ञानिक पैरामीटर्स
------	--	---	--

इस प्रकार उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशाला तथा सरकारी विश्लेषक अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगे।

एस. पी. सिंह परिहार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./330/16 (184)]

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 728(अ) दिनांक 21.07.1987 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात उसमें निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किये गये : (1) का.आ. 838(अ), दिनांक 23.09.87 (2) का.आ. 989(अ) दिनांक 17.11.87 (3) का.आ. 489(अ) दिनांक 17.05.88 (4) का.आ. 156(अ) दिनांक 24.02.89 (5) का.आ. 846(अ) दिनांक 24.10.89 (6) का.आ. 375(अ) दिनांक 26.04.1990 (7) का.आ. 803(अ) दिनांक 23.09.92 (8) का.आ. 97(अ) दिनांक 05.12.1994 (9) का.आ. 418(अ) दिनांक 31.03.1996 (10) का.आ. 889(अ) दिनांक 31.08.1996 (11) का.आ. 452(अ) दिनांक 31.05.97 (12) का.आ. 631(अ) दिनांक 31.05.1998 (13) का.आ. 336(अ) दिनांक 01.01.1999 (14) का.आ. 44(अ) दिनांक 15.01.2001, (15) का.आ. संख्या 490(अ), दिनांक 01.06.2001 और (16) का.आ. संख्या 532(अ), दिनांक 01.01.2002, (17) का.आ. संख्या 1168(अ), दिनांक 01.06.2001, (18) का.आ. संख्या 888(अ), दिनांक 01.06.2003, (19) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.06.2004, (20) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.03.2005 (21) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.09.2005, (22) विधि/42(3)/87, दिनांक 15.12.2005, (23) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.05.2006, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.09.2006, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.01.2007, विधि/42(3)/87 दिनांक 15.04.2007, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.08.2007, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.10.2007, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.02.2008, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.04.2008, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.10.2009, विधि/42(3)/87, दिनांक 15.01.2010, विधि/42(3)/87, दिनांक 20.09.2010, विधि/42(3)/87, दिनांक 27.01.2011, विधि/42(3)/87, दिनांक 31.01.2012, 14.08.2014, 10.03.2015, 11.12.2015 और 07.03.2016

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2016

No. Legal 42(3)/87.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and 13 read with clause 1 of the Notification No. 145 E, dated 21st February, 1991, issued under Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032 hereby recognize, (a) the Laboratory specified in column (2) of the table below as 'Environmental Laboratory' to carry out the functions entrusted to the Environmental laboratories under the said Act, and the rules made thereunder and (b) specified persons in column (3) of the table as the Government Analysts for the purpose of analysis of samples of Air, Water, or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4). After Sr. No. 162 of the Notification No. Legal/42(3)/87, dated 07th March 2016, and the entries relating thereto, the following serial no. and entries shall be added namely:—

Sl. No.	Name of Laboratory	Name of the Govt. Analysts	Recognized for parameter groups
(1)	(2)	(3)	(4)
163	Central Environmental Laboratory Karnataka State Pollution Control Board Nisarga Bhawan "B" Block, 7 th 'D' Main Thimmaiah Road, Shivanagar, Bengaluru-560058	1. Dr. H. Lokeshwari Chief Scientific Officer-2 2. Sh. H. M. Shivakumar Scientific Officer 3. Dr. H. Roopadevi Scientific Officer 4. Dr. B. M. Sreedhara Nayak Deputy Scientific Officer 5. Sh. Ragavendra Assistant Scientific Officer	Physical, General, & non-metallic, metals, organics, microbiological, toxicological, biological, Hazardous waste, soil, sludge, sediments, and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emission, noise and micro-meteorological parameters.

164	Zonal Office (West) Laboratory Central Pollution Control Board Parivesh Bhawan, Opposite -VMC Ward office No-10, Subhanpura, Vadodara-390023 Gujarat	1. Shri B. R. Naidu Scientist E 2. Dr. D. Brahmaiah Scientist D	Physical, General & non-metallic, metals, organics, microbiological, toxicological, biological, soil, Sludge, Sediments & air pollution parameters for analysis of ambient air, source emission, noise and micro- meteorological parameters & vehicular emission parameters.
165	Environmental Laboratory Central Mine Planning & Design Institute Limited (CMPDI) Gondwana Place, Kanke Road Ranchi-834008 Jharkhand	1. Mr. D. K. Sah Senior Manager (Environment) 2. Dr. Vinita Arora Senior Manager (Environment) 3. Shri P. C. Jha Senior Manager (Environment)	Physical, General & non-metallic, metals, organics, microbiological, toxicological and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emission, noise and micro- meteorological parameters.

The Environmental Laboratories and the Government Analysts so mentioned shall remain valid for a period of five years from the date of issue of Notification.

S. P. SINGH PARIHAR, Chairman

[ADVT.-III/4/Notif./330/16 (184)]

Foot Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.O. 728(E), dated 21-7-1987 and subsequently amended vide- (1) Nos. S.O. 838(E), dated 23-9-87, (2) S.O. 989(E), dated 17-11-87, (3) S.O. 489(E), dated 17-5-88, (4) S.O. 156(E), dated 24-2-89, (5) S.O. 846(E), dated 24-10-89, (6) S.O. 375(E), dated 26-4-1990, (7) S.O. 803(E), dated 23-9-92, (8) S.O. 97(E), dated 5-12-1994, (9) S.O. 418(E), dated 31-3-1996, (10) S.O. 889(E), dated 31-8-1996, (11) S.O. 452(E), dated 31-5-97, (12) S.O. 631(E), dated 31-5-1998, (13) S.O. 336(E), dated 1-1-1999, (14) S.O. 44(E), date 15-1-2001, (15) S.O. 490(E), dated 1-6-2001, (16) S.O. 532(E), dated 1-1-2002, (17) S.O. 1168(E), dated 1-6-2001, (18) S.O. 888(E), dated 1-6-2003, (19) Legal/42(3)/87, dated 1-6-2004, (20) Legal/42(3)/87, dated 1-3-2005, (21) Legal/42(3)/87, dated 1-9-2005, (22) Legal/42(3)/87, dated 15-12-2005, (23) Legal/42(3)/87, dated 1-5-2006, Legal/42(3)/87, dated 1-9-2006, Legal/42(3)/87, dated 1-1-2007, Legal/42(3)/87, dated 15-4-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-8-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-10-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-2-2008, Legal/42(3)/87, dated 1-4-2008, Legal/42(3)/87, dated 1-10-2009, Legal/42(3)/87, dated 15-1-2010, Legal/42(3)/87, dated 20-9-2010, Legal/42(3)/87, dated 27-1-2011, Legal/42(3)/87, dated 31-1-2012, 14-8-2014, 10 -03- 2015, 11-12-2015 and 07-03-2016.